

ISO 9001:2015 ISO 14001:2004 Certified Company CIN: L14100RJ1991PLC073860

Ref: GSL/SEC/2025-26/34

**Date: August 24, 2025** 

The Listing Department

Symbol: GSLSU

Exchange Plaza, C-1, Block G,

Mumbai 400 051 (Maharashtra)

**National Stock Exchange of India Limited** 

Bandra Kurla Complex, Bandra (East),

To,

**BSE Limited.** 

Dept of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001 (Maharashtra)

**Scrip Code: 543829** 

**Subject:** Submission of Newspaper clippings.

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisement published by the Company in all edition of Financial Express (English) and Business Remedies (Regional -Hindi) Newspaper on August 24, 2025 regarding Dispatch of Notice of 34th Annual General Meeting of the Company along with Annual Report for the Financial Year 2024-2025 to the shareholders.

The above notice will also be hosted on the website of the Company and the same can be accessed at www.globalsurfaces.in

You are requested to take on record the above information.

Thanking You

Yours Faithfully,

For Global Surfaces Limited

**Dharam Singh Rathore Company Secretary and Compliance Officer** ICSI Mem. No.: A57411

Place: Jaipur

Encl: As above



Registered Office & Quartz Division: Plot No.: PA-010-006, SEZ Engineering & Related Industries, Mahindra World City, Teh. Sanganer, Jaipur 302037 (Rajasthan), Ph. 0141-7191000

Natural Stone Division: Plot No.: E40-42, G43-47 RIICO Industrial Area, Bagru Ext., Jaipur 303007, Rajasthan (India) Ph. 0141-2865186/87, +91 99822 49800









**FE SUNDAY** 

multipage

### MULTIBASE INDIA LIMITED

Regd. Office: 74/5 6, Daman Industrial Estate, Kadaiya Village, Nani Daman, Union Territory, DD-396 210 CIN: L01122DD1991PLC002959 Tel: 0260-8614400; Fax: 0260-2221578 E-mail: compliance.officer@multibaseindia.com Website: www.multibaseindia.com

#### SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER OF REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

In accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD-PoD/Pi CIR/2025/97dated July 02, 2025, Members of the Multibase India Limited are hereby informed that a special window has been opened from July 07 2025, to January 06, 2026, for re-lodgement of transfer deeds.

Members of the Company are requested to note that this window is only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to deadline of April 01, 2019 for transfer of physical shares, and rejected/returned/not attended due to the deficiency in the documents/process/ or otherwise.

Members who wish to avail the opportunity are requested to contact our Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e. MUFG Intime India Private Limited ('formerly known as Link Intime India Pvt, Ltd.), C 101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Tel No. +91 22 491 86 000, Email mumbai@in.mpms.mufg.com or rnt.helpdesk@linkintime.co, else you can also write your concern to the Nodal Officer of the Company at Parmy Kamani, Company Secretary and Compliance Officer, email: compliance.officera@multibaseindia.com.

The Company's website, www.multibaseindia.com has been updated with details regarding the opening of special window and further updates, it any, shall be uploaded therein.

For Multibase India Limited

Date: August 24, 2025 Place: Mumbai

Sd/ Parmy Kamani Company Secretary and Compliance officer



### VIP CLOTHING LIMITED

Registered Office: C-6, Road No. 22, M.I.D.C., Andheri (East), Mumbai - 400 093.

Website: www.vipclothing.in Email ID: investor.relations@vip.in; Tel: 022 - 40209000/1/2/3/4/5; CIN: L18101MH1991PLC059804

Information regarding 35th Annual General Meeting to be held through Video Conference/Other Audio-Visual Means

NOTICE is hereby given that the 35th Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Company is scheduled to be held on Thursday, September 18, 2025 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conference ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020 and 09/2023 dated September 25, 2023, 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Master Circular number SEBI/HO/CFD/PoD2/ CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 read with Circular number SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/2023/167 dated October 7, 2023, read with Circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), to transact the business as set out in the Notice convening the

In compliance with the Circulars, the Notice convening the 35th AGM of the Company along with the Annual Report for FY 2024-25, have been sent through electronic mode on August 23, 2025, to all the members whose e-mail ids are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited) or with the Depository Participant(s) as on the cut-off date Wednesday, August 20, 2025. Further, In accordance with Regulation 36(1)(b) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a letter providing the weblink of Company's website where the Annual Report for FY 2024-25 can be accessed, is being sent to shareholders whose e-mail addresses are not registered with the Company.

The Notice of 35th AGM and Annual Report for F.Y. 2024-25 is also be made available on Company's website: www.vipclothing.in, website of Stock Exchanges i.e., BSE Ltd. www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com. Members who have not updated their e-mail IDs are requested to update the same by writing to our RTA, MUFG Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

## Instructions for remote e-voting and e-voting during AGM:

The Company, through MUFG Intime India Private Limited ("MIIPL") (formerly Link Intime India Private Limited), is providing the facility of remote e-voting to its Members, to enable them to exercise the right to vote by electronic means in respect of businesses to be transacted at the AGM. Members may accordingly cast their vote electronically from a place other than venue of AGM (remote e-voting) on all the businesses/resolutions set forth in the Notice of the AGM. Members who could not vote through remote e-voting, may vote at the AGM through the 'e-voting' facility provided by MUFG Intime India Private Limited during the AGM at https://instavote.linkintime.co.in.

Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through e-voting.

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s)

The Company has engaged the services of MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited) as the Agency to provide remote evoting and participation in the 35th AGM through VC/OAVM Facility (Instameet) and e-Voting during the 35th AGM.

Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to members through e-mail.

Members are requested to carefully read the instructions mentioned in the notes forming part of Notice of the 35th AGM for remote e-voting and for attending AGM and e- voting at AGM.

The remote e-voting facility will be available during the following period:

Date and time of Commencement of remote e-voting	Monday, September 15, 2025 at 10:00 A.M. IST
Date and time of end of	Wednesday Sentember

remote e-voting

Remote e-voting will not be allowed beyond above date and time and the e-voting module will be disabled by MUFG Intime India Private Limited for voting thereafter. Once the vote on resolution is cast by shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. Shareholders' of the Company, holding shares either

17, 2025 at 05:00 P.M. IST

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, August 20, 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at rnt.helpdesk@in.mpms.mufq.com

in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date

Thursday, September 11, 2025 may cast their vote electronically.

However, if a person is already registered with for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote.

The Board of Directors of the Company has appointed CS Ketan Ravindra Shirwadkar (Membership No. A37829 and COP No. 15386) proprietor of M/s KRS AND CO., Practicing Company Secretaries, Thane, Maharashtra as scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

In case the shareholders/members have any queries or issues regarding remote e-voting, attending and participating in the AGM and e-voting at the AGM, they can write an email to instameet@in.mpms.mufq.com or contact on: - Tel: 022 - 4918 6000 / 4918 6175.

In case the shareholder's email ID is already registered with the Company/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, the log in details for e-voting are being sent on the registered email

#### address. In case of Shares held in Physical Mode:

Date : August 23, 2025

Place : Mumbai

The Shareholder may send a request quoting its Folio No. to RTA by email at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com In the case of Shares held in Demat mode:

## The shareholder may please contact the Depository Participant

("DP") and register the email address details in the demat account as per the process followed and advised by the DP. By order of the Board

LEADER

For VIP Clothing Limited SD/-Rahul Soni

RIVOLTA

Place: Jaipur

Date: August 23, 2025

Company Secretary

Membership No.: A61035 House of Brands

## SUYOG TELEMATICS LIMITED

CIN: L32109MH1995PLC091107

Registered Office: Suyoo House, Plot No.30, MIDC Central Road, Andheri (East), Mumbai-400093 | Tel No. +91 022 2579 5516 Email Id: investor@suyogtelematics.co.in | Website: www.suyogtelematics.co.in

NOTICE OF THE 30™ ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO-VISUAL MEAN

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Suyog Telematics Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 16, 2025 at 11.30 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business set out in the Notice of the The AGM will be held through VC/OAVM in compliance with the applicable

provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on conducting AGM through VC/OVAM from time to time. Members participating through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of guorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the circulars issued by MCA and SEBI, the Notice of the AGM together with the Annual Report will be sent to the Members electronically to the e-mail IDs registered by them with the Depository Participant/the Company.

The Notice of the 30th AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25 will also be available on the Company's website i.e. www.suyogtelematics.co.in, the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the website of National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at www.nseindia.com on which the equity shares of the Company are listed and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. 1. Procedure to be followed by those Members whose e-mail IDs are not

registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail IDs for e-Voting for the resolutions set out in AGM a) In case shares are held in physical mode, if any, please provide folio no.

name of Member, scanned copy of the share certificate (front and back). PAN (self-attested scanned copy of PAN card) and AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email at the Company's e-mail Id i.e. investor@ suyogtelematics.co.in / RTA's email id i.e. investor@bigshareonline.com. b) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID

+ CLID or 16 digit beneficiary ID), name, client master or copy of Consolidated

Account statement, PAN (self-attested copy) and AADHAR (self-attested copy)

by email at the Company's email Id i.e. investor@suyogtelematics.co.in

RTA's email id i.e. investor@bigshareonline.com. Alternatively, Members may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by providing the details mentioned in Point (a)

#### or (b) as the case may be. 2. Manner of casting vote through e-Voting:

a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through remote e-Voting facility at the AGM.

b) In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020, e-Voting process will also be enabled for all individual demat account holders, by way of single login credentials, through their demat accounts/ websites of NSDL and/ or Central Depository Services (India) Limited or Depository Participant(s).

c) Instructions on the process of remote e-Voting and e-Voting at the AGM is provided as part of the Notice of the 30th AGM.

d) Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-Voting will be able to vote electronically at the AGM.

 e) Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM or at www.evoting. nsdl.com. The detailed procedure for attending the AGM through VC/ OAVM is explained in the Notice of the AGM. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM (being sent electronically) and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-Voting or through e-Voting facility at the AGM.

By the Order of Board of Directors For Suyog Telematics Limited Aarti Kamlesh Shukla

ACS: 63670

Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai Date: August 23, 2025

# **GLOBAL SURFACES LIMITED**

Registered Office: Plot No. PA-10-006, Engineering and Related Industries SEZ, Mahindra World City, Tehsil-Sanganer, Jaipur, Raj., 302037 Tel. No. 0141-7191000

NOTICE OF 34™ ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

E-mail: cs@globalsurfaces.in, Website: - www.globalsurfaces.in

Notice is hereby given that 34th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Global Surfaces Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 18, 2025 at 02.00 P.M (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circular Nos 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 19/2021 dated December 8, 2021, 02/2022 dated May 5, 2022, 10/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023, 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/ CIR/ 2023/4 dated January 5, 2023,and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/ 2023/167 dated October 7, 2023and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") to transact the business(es) as set out in the Notice calling the AGM, without the physical presence of the

The Members will be provided with the facility to attend the 34thAGM through VC/OAVM through the National Securities Depository Limited ('NSDL') e-Voting system. Members may access the same at www.evoting.nsdl.com under the Members login by using the e-Voting

Electronic copies of the Notice of the 34thAGM and the Annual Report for the financial year 2024-25 have been sent to all the members on August 23,2025, whose e-mail IDs are registered with the Company /Registrar and Share Transfer Agent (RTA)/Depository Participant(s) as on Friday, August 15, 2025 Further, in accordance with the Regulation 36 (1) (b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 ("LODR Regulations"), a letter containing the web-link including the exact path, where complete details for accessing the notice of 34thAGM and Annual Report for financial year 2024-25 of the Company has been sent to all those Members who have not registered their email IDs. The copy of the Notice of the 34thAGM along with the Annual Report is also available on the website of the Company and the same can be accessed at www.globalsurfaces.in, website of the Stock Exchanges on which the shares of the Company are listed i.e., BSE Limited at www.bseindia.comand National Stock Exchange of India at www.nseindia.com and the website of the National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. E-VOTING INFORMATION

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (as amended), the Company is providing e-voting facility to its Members through NSDL to exercise their right to vote electronically on resolutions proposed to be transacted at the 34thAGM of the Company.

In this regard, the Members are hereby further informed that:

a) A person whose name is recorded in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e., Thursday, September 11, 2025, only shall be entitled to avail the facility of remote evoting or e-voting at the AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes member

shares as on the cut-off date i.e., Friday, September 11, 2025 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote. The remote e-voting period Commences on Monday, September 15 2025 at 09.00 A.M (IST) and ends on Wednesday, September 17, 2025

of the Company after dispatch of the Notice of 34thAGM and holding

at 05.00 P.M (IST). The remote e-voting shall not be allowed after 05.00 PM. on Wednesday, September 17, 2025and the same will be disabled Members who have not cast their vote through remote e-voting and are

present in the AGM through VC/OAVM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM e) Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM

may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. The detailed procedure/instructions for Joining the AGM through VC/OAVM and casting of votes through remote e-voting and e-voting at the AGM are given in the Notice of the AGM.

The Board of Directors has appointed Mr. Akshit Kumar Jangid (M.No.: FCS 11285 C.P.No.:16300), Partner of M/s. Pinchaa & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize the E-voting process in fair and transparent manner.

n case of any gueries/grievances pertaining to voting by electronic means or joining the AGM through VC/OAVM, the Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting user manual for members available at www.evoting.nsdl.comunder help section or call on : 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager (NSDL)at pallavid@nsdl.com or may write at the postal address of NSDL at3rdFloor, Naman Chamber, G Block, Plot No- C-32, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra-400051.

> For Global Surfaces Limited Dharam Singh Rathore Company Secretary and Compliance Officer M. No. A57411

**Uttam Sugar Mills Limited** UTTAM SUGAR [Corporate Identity Number (CIN): L99999UR1993PLC032518] Regd. Office: Village Libberheri, Tehsil Roorkee, District Haridwar, Uttarakhand - 247667

Tel.: 0120 - 4525000, Website: www.uttamsugar.in, e-mail id: investorrelation@uttamsugar.in NOTICE OF 30" ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND RECORD DATE

NOTICE is hereby given that the 30° Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Friday, 19th September, 2025 at 12:00 noon through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") to transact the business(es) as set out in the Notice of AGM, The Company's 30" Annual Report along with notice convening the AGM, have already been sent through electronic mode on 23° August, 2025 to all the members whose email ids are registered with the Company/Depository/ Depository Participants/ RTA in accordance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities Exchange Board of India. Further, pursuant to Regulation 36(1)(b) a letter providing the web-link for accessing the Notice and Annual Report, including the exact path, has also been dispatched to those Members who have not registered the email address with the Company/Depository Participants/RTA. The Notice of the 30° AGM and Annual Report is also available on the website of the Company at www.uttamsugar.in, at the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com.

#### E-VOTING

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended upto date and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulrements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to Members the facility to cast their vote by electronic means on all the resolutions set forth in the Natice convening the AGM using electronic voting system (remote e-voting as well as e-voting on the day of AGM) provided by NIVIS CORPSERVE LLP through National Securities Depository Limited. Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date i.e. Friday, 12" September, 2025 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

#### OTHER DETAILS FOR AGM AND E-VOTING

The remote e-voting period will commence on Tuesday, 16th September, 2025 (9.00 a.m.) and ends on Thursday, 18th September, 2025 (5.00 p.m.). During this period, the Members may cast their votes electronically. Voting through remote e-voting will not be permitted beyond 5.00 p.m. on Thursday, 18" September, 2025. The remote e-voting module shall be disabled by National Securities Depository Limited for voting thereafter.

In case a person has become a member of the Company after dispatch of AGM Notice but or or before the cut-off date for remote e-voting and e-voting at the AGM i.e., Friday, 12<sup>th</sup> September, 2025, he/she may obtain the User ID and Password for joining the AGM and evoting in the manner as provided in the notice of the 30° AGM. A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote

through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Those members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

#### DIVIDEND AND RECORD DATE

) The cut-off/ record date for the purpose of determining the entitlement of shareholders for the final dividend for financial year 2024-25 is Friday, 12th September, 2025. The payment of dividend shall be made within 30 days of the AGM subject to member's approval at AGM. The Dividend, if declared, will be paid through Reserve Bank approved electronic mode to

those Shareholders who have updated their bank account details with the Company's Depository Participants /RTA.

The manner in which the members may update their Bank Account details for receiving dividend is detailed in the Notice of the AGM

Shareholders who need technical assistance before or during the AGM:

May refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for

Members available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com. Call on toll free no.: 1800-1020-990 and 1800-2244-30 or send a request at

Contact Ms. Richa Rastogi, Nivis Corpserve LLP, contact No. 011-45201005, email id: info@nivis.co.in or Mr. Rajesh Garg, Company Secretary & Compliance Officer, A-2E, III' Floor, CMA Tower, Sector-24, Noida (U.P.), phone no. 0120-4525000 or e-mail: investorrelation@uttamsugar.in.

> By Order of the Board of Directors of the Company For Uttam Sugar Mills Limited (RAJESH GARG)

Date: 24" August, 2025 Place: Noida

Company Secretary & Compliance Officer (Membership No. FCS-5841)

### JAGRAN PRAKASHAN LIMITED CIN-L22219UP1975PLC004147 Registered Office: Jagran Building, 2, Sarvodaya Nagar, Kanpur-208005

Tel: +91 512 2216161 Website: www.jpicorp.in, E-mail: investor@jagran.com NOTICE OF 49<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 49° Annual General Meeting ("AGM") of the members of Jagran Prakashan Limited ("the Company") will be held on Friday, September 19, 2025 at 12:30 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations"), read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, and subsequent circulars issued in this regard by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), (collectively referred to as "MCA circulars"), and circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") in this regard (collectively referred to as "SEBI circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM dated August 20, 2025 ("the Notice"), The Registered Office of the Company shall be deemed to be the venue for the AGM

In compliance with the relevant circulars, the Notice setting out the businesses to be transacted at the AGM and Annual Report of the Company for the financial year 2024-25 ("Annual Report') have been sent through electronic mode on Saturday, August 23, 2025 to those shareholders, whose e-mail addresses are registered with the Company / Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited ("KFintech" / "RTA"), Depository The aforesaid documents are also available on the Company's corporate website at

www.jplcorp.in, on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com, and also on the website of the RTA at https://evoting.kfintech.com. Further, in accordance with the provisions of Regulation 36(1)(b) of the Listing Regulations, the Company is also sending a letter to those shareholders, whose e-mail IDs are not registered, providing the web-link of the Company's website from where the Annual Report can be accessed. Members desirous of obtaining the physical copy of the Notice and Annual Report may send a request containing their Folio No./DP ID and Client ID to the Company at

## Instructions for remote e-voting and e-voting during AGM:

In terms of the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard-2 on General Meetings and relevant provisions of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide to its Members, the facility to exercise their right to vote electronically, through e-voting services provided by KFintech from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting") and e-voting during the AGM, on all resolutions as set out in the Notice.

Information and instructions for remote e-voting and for attending the AGM, including details of user id and password have been sent to the Members through e-mail and is also provided

The manner of remote e-voting by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses is also provided in the Notice of the AGM which is also available on the corporate website of the Company: www.jplcorp.in and on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE and NSE at https://www.bseindia.com and https://www.nseindia.com/market-data/live-equitymarket?symbol=NIFTY%2050 respectively, and on the website of KFintech, at ttps://evoting.kfintech.com

#### The Members of the Company are further informed as follows: a). The remote e-voting will begin on Tuesday, September 16, 2025 (9:00 A.M. IST) and end

on Thursday, September 18, 2025 (5:00 P.M. IST). The remote e-voting module shall be disabled by KFintech for voting thereafter.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Ownership maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Friday, September 12, 2025 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of this Notice but on or before the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM, which is available on Company's website and KFintech's

Facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the AGM for those members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their rights at the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM and their presence shall be counted for the purpose of quorum, but shall not be allowed to cast their vote again. In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Members

may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact Ms. Rajitha Cholleti, at evoting@kfintech.com or call KFintech's toll free No. 1-800-309-4001 for any Participation of Members through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum

for the AGM as per Section 103 of the Act. g) Mr. Adesh Tandon, Practising Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer,

to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner. The results on resolutions shall be declared not later than two (2) working days from the

conclusion of the AGM and the resolutions will be deemed to be passed on the date of the AGM subject to receipt of the requisite number of votes in favor of the resolutions. The results declared along with the Scrutinizer's Report will be available on the website

of the Company, www.iplcorp.in and on KFintech's website at https://evoting.kfintech.com

and will also be communicated to BSE and NSE. For Jagran Prakashan Limited

(Amit Jaiswal) Place: Kanpur Chief Financial Officer, Company Secretary and Compliance Officer Date: August 23, 2025 ICSI Membership No.: F5863 FORM G

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (WITH EXTENDED TIMELINES) **GVK ENERGY LIMITED** HOLDING INVESTMENTS & OPERATING IN INFRASTRUCTURE INDUSTRY AT UTTARAKHAND (Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS Name of the corporate debtor along | GVK Energy Limited with PAN & CIN / LLP No. PAN: AADCG2348H

CIN: U40102TG2008PLC058683 2. Address of the registered office Plot # 10, Paigah Colony, Phase-I Sardar Patel Road, Secunderabad, Telangana, India - 500003 3. URL of website https://www.gvk.com/ 4. Details of place where majority of fixed Hyderabad and Uttarakhand

assets are located 5. Installed capacity of main products/services O&M provider to 330 MW Hydro Power Plant 6 Quantity and value of main products/ INR 28.36 Crores (as per audited financia services sold in last financial year statements for FY 2024-25) 7. Number of employees / workmen

8. Further details including last available Further details can be accessed from website or financial statements (with schedules) of two sought from Resolution Professional through years, lists of creditors are available at URL: request on the following E-mail ID – p.gvkel@gmail.com

Eligible Resolution Applicants will be identified in 9. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available accordance with Detailed Invitation for Expression at URL: of Interest dated 10th July, 2025 (Extended)

Extended Date: 01.09.2025 Previous Date: 29.08.2025 Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants Extended Date: 06.09.2025 12. Last date for submission of objections to Previous Date: 03.09.2025

14 Date of issue of information memorandum, Previous Date: 13.09.2025 evaluation matrix and request for resolution Extended Date: 21.09.2025 plans to prospective resolution applicants 15. Last date for submission of resolution plans Previous Date: 13.10.2025

Extended Date: 21.10.2025 16. Process email id to submit Expression of Interest ip.gvkel@gmail.com . Details of the corporate debtor's

For GVK Energy Ltd. Venkata Chalam Varanasi **Resolution Professional** Reg No.: IBBI/IPA-002/IP-N00267/2017-18/10780

APLAPOLLO



## APL APOLLO TUBES LIMITED

Registered Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi -110092 Corporate Office: SG Center, Block-B, Noida Sector 132, Noida - 201304 Tel.: 120-6918000 CIN: L74899DL1986PLC023443 Email: investors@aplapollo.com Website: www.aplapollo.com

Members of APL Apollo Tubes Limited ("the Company") were informed that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI deemed venue of the meeting shall be the registered office of the Company.

through VC/OAVM facility including e-voting has been completed on Thursday. August 22. 2025 through e-mail to all those Members whose e-mail addresses were registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") in accordance with the above MCA Circulars and SEBI Circulars, and Members whose email address are not registered; a letter has been sent at their registered address providing the web-link and exact path where complete details of the Integrated Annual Report are available and the same are also available on Company's website www.aplapollo.com), Stock Exchanges' websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited "CDSL") (www.evotingindia.com). The physical copy of the notice and/or the Integrated

ntegrated Annual Report and the AGM Notice can also be accessed through the below QR: Notice of 40° AGM Integrated Annual Report for FY 2024-25

n compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, Secretarial Standard on General Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of ndia (SS-2) and MCA Circulars, the Members are provided with the facility to cast their votes lectronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) services rovided by CDSL on all resolutions set forth in the Notice of the 40" AGM.

The remote e-voting shall commence on Friday, September 12, 2025 at 10.00 A.M.(IST) and

olding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Monday, September 8, 2025 may cast their votes electronically, Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting. The Dividend for the financial year ended March 31, 2025 of ₹5.75/- per Equity Share having nominal value of ₹2/- each, as recommended by the Board of Directors, if declared at the AGM,

will be credited/dispatched within 30 days from the date of AGM after deduction of applicable tax as per the provisions of Income-Tax Act, 1961, to those Members whose names appear on the Register of Members of the Company on Friday, August 22, 2025 or to their mandates. In respect of shares held by the Members in dematerialised form, dividend will be credited/dispatched on the basis of details of beneficial ownership as on Friday, August 22, 2025 to be received from the depositories for this purpose.

through voting by electronic means;

A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information

electronic dispatch of the Notice of 40" AGM and holding shares as on the Cut-off date, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of the 40" AGM or sending a request to helpdesk, evoting@cdslindia.com. However, if he/she is already registered with CDSL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and password to cast their vote; and

Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by the CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again: c) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM: and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cutoff date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.

has been provided in Notice of AGM. Shri Jatin Gupta, Practicing Company Secretary (Membership No.: FCS 5651: COP No. 5236). has been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process in a

The voting rights of the Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on cut-off date i.e. Monday, September 8, 2025. The result of voting will be declared within 2 working days from the conclusion of AGM i.e., on or

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL), Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East) Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800

Members holding shares in electronic form and who have not updated their email or KYC details are requested to register/update the details in their demat account, as per the process advised by their Depository Participant. Members holding shares in physical form who have not updated their email or KYC details are requested to register/update the said details in the prescribed Form ISR - 1 with Registrar and Share Transfer Agent of the Company, M/s Abhipra Capital Ltd. Members are also recommended to complete their nomination in the prescribed form SH-13 or Opt-out for Nomination through submitting Form ISR-3. Members can access

the relevant forms on the Company Website at https://aplapollo.com/downloads.

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2. 2025, a special window is being provided from July 7, 2025 to January 6, 2026 to facilitate the re-lodgement of transfer requests of physical shares. This facility is available only for the transfer deeds lodged before April 1, 2019 that were rejected, returned, or left unattended due to

Note: Re-lodged transfers will be processed only in demat form. A demat account is mandatory.

nvestors must provide Client Master List along with Transfer Documents, Share Certificates

and other relevant documents. No requests will be accepted after January 6, 2026. For and on behalf of

Place: Noida New Delhi

Date: August 23, 2025

Company Secretary & Compliance Officer

Vipul Jain M. No.: A20971

(available at website under "GVKEL CIRP" and/or by requesting at ip.gvkel@gmail.com.

10. Last date for receipt of expression of interest Previous Date: 24.08.2025

provisional list Extended Date: 11.09.2025

13. Date of issue of final list of prospective Previous Date: 08.09.2025 Extended Date: 16.09.2025 resolution applicants

Not registered as a MSME entity as per registration status as MSME information available

**Date**: 24.08.2025 Registered Address: Place: Hyderabad No. 12-13-205, Street No. 2, Tarnaka, Secunderabad-500017



NOTICE OF 40" ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION TO MEMBERS This is in continuation to our earlier communication published on August 19, 2025, whereby

Listing Regulations") read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and other circulars issued in this regard, the latest being Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEB Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 ("SEBI Circulars"), it was decided to convene the 40" Annual General Meeting ("AGM") of the Company on Monday, September 15, 2025 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set out in the Notice of 40° AGM. The The process of sending the Notice of 40" AGM and Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2025 along with login details for joining the AGM

Annual Report shall be made available to the Member(s) who may request the same. The

shall end on Sunday, September 14, 2025 at 5.00 P.M.(IST), During this period, members

The Ordinary and the Special Businesses as set out in the Notice of AGM will be transacted

Any person, who acquires shares and becomes a Member of the Company after the date of

Detailed Procedure for remote e-voting/e-voting and participation in AGM through VC/OAVM

fair and transparent manner.

before Wednesday, September 17, 2025 and results so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report shall be placed at the Company's registered office and CDSL's website (www.evotingindia.com) and simultaneously communicated to the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, where the Company's shares are listed and on the website of the Company at www.aplapollo.com

Special window for Re-Lodgement of transfer request of physical shares:

documentation or process issues. The request may be submitted to the Company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA): Abhipra Capital Limited, Abhipra Complex, Dilkhush Industrial Area, G.T. Karnal Road, Azadpur, New Delhi - 110033, Tel: 011-42390725 E-mail:rta@abhipra.com

APL Apollo Tubes Limited

epaper.financialexpress.com

# 1.2 मीट्रिक टन 'गढ़वाली सेब' की पहली खेप देहरादून से दुबई के लिए हुई खाना : एपीडा

'जम्मू-कश्मीर से प्रीमियम चेरी की पहली वाणिज्यिक खेप सऊदी अरब और यूएई के लिए खाना'

बिजनेस रेमेडीज/ नई दिल्ली/आईएएनएस

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, भारत सरकार के वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल की ओर से दुबई के लिए गढ़वाली सेब (किंग रोट प्रजाति) की पहली खेप को खाना कर दिया गया है।

एपीडा की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा गया, 'उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के सेब अब विदेशों में भी खाए जाएंगे।' पीडा ने इस पोस्ट में बताया कि संयुक्त अरब अमीरात में प्रचार के लिए 1.2 मीट्रिक टन गढ़वाली सेब की पहली परीक्षण खेप, एलयूएलयू ग्रुप के

बिज्नेस रेमेडीज/अहमदाबाद

अहमदाबाद,आज का दिन

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में

इतिहास रचने वाला बन गया

अहमदाबाद स्थित Save Earth

Mission के मुख्यालय में Save

Earth Mission और पर्यावरण

मंत्रालय के अधीन MOEFC-

CPC के बीच एक महत्वपूर्ण

Understanding (MOU) पर

हस्ताक्षर किए गए समझौता न

केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया

के लिए हरित भविष्य की दिशा

MOEFCCPC के चेयरमैन श्री

राहुल द्विवेदी और Save Earth

Mission के ग्लोबल हेड

(Loyalty) राहुल पांडेय

उपस्थित रहे उनके साथ Save

Earth Mission के वरिष्ठ

पदाधिकारी अशोक पाटीदार

(जिला अध्यक्ष) भी इस क्षण

के साक्षी बने।कार्यक्रम की

शुरुआत Save Earth Mission

इस ऐतिहासिक अवसर पर

में नई आशा लेकर आया है

Memorandum



सहयोग से, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के सचिव सुनील बर्थवाल द्वारा देहरादुन से रवाना की गई। इससे पहले इस वर्ष जून में जम्मू-कश्मीर से प्रीमियम चेरी की पहली वाणिज्यिक खेप सऊदी अरब और यूएई के लिए खाना की गई। केंद्रीय वाणिज्य एवं व्यापार मंत्री पीयुष गोयल ने इस मौके

धरती माँ की रक्षा का संकल्प — Save Earth Mission

और MOEFCCPC की ऐतिहासिक समझौता

आधुनिक तकनीक व जनभागीदारी से पौधारोपण, कार्बन क्रेडिट और पारदर्शी हरित क्रांति का आगाज

के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप चौधरी

ने सभी अतिथियों के हार्दिक

स्वागत से की अपने उद्बोधन में

उन्होंने कहा कि "Save Earth

Mission केवल एक संगठन

नहीं, बल्कि धरती माँ की रक्षा

का सामृहिक संकल्प है। जब-

जब पृथ्वी संकट में आई है,

तब-तब सामृहिक चेतना ही

समाधान बनी है। यह रूश उसी

चेतना का प्रतीक है।' फोन के

माध्यम से जुड़े वाइस प्रेसिडेंट

जितेंद्र मीना ने भी सभी को

बधाई देते हुए इसे संगठन की

आगामी उपलब्धियों की दिशा में

MOU से खुलेंगे हरित

भविष्य के नए द्वार : यह

मजबूत कदम बताया

पर कहा कि 'चेरी किसानों' के लिए एक बड़ा बाजार खुल गया है और अब उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने पोस्ट किया, 'बहुत खुशी की बात है। जम्मू-कश्मीर से प्रीमियम चेरी की पहली वाणिज्यिक खेप सऊदी अरब और यूएई के लिए रवाना हुई है।' केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी थी कि मोदी

समझौता Save Earth Mission

की राष्ट्रीय मुहिम 'एक पेड़ माँ के

नाम' को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

इस अभियान के अंतर्गत Geo-

tagging और Clean Climate

App के जरिए वृक्षारोपण की

पारदर्शी मॉनिटरिंग होगी। आम

जनता की जनभागीदारी से हरित

क्रांति को जनआंदोलन का

स्वरूप मिलेगा। कार्बन क्रेडिट

निर्माण द्वारा सतत विकास और

आर्थिक अवसरों को बढ़ावा

जवाबदेही के साथ प्रकृति

संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

इस MOU के माध्यम से भारत

हरित आंदोलन में वैश्विक नेतृत्व

की भूमिका निभा सकेगा।

मिलेगा।

पारदर्शिता

सरकार भारत को प्रीमियम एग्री-प्रोडक्ट के ग्लोबल सप्लायर के रूप में स्थापित करने के लिए लॉजिस्टिक्स संबंधी किमयों को दूर कर रही है। इसे वोकल फॉर लोकल के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा गया। अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश के नागरिकों और दुकानदारों से 'वोकल फॉर लोकल' पहल के तहत भारत में निर्मित वस्तुओं का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से देशभर के व्यापारियों से अपील की कि वे स्वदेशी उत्पादों को मजबूरी में नहीं, बल्कि मजबूती के साथ अपनाएं और उनका प्रचार करें, जिससे आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य

नीति आयोग ने होमस्टे

को बढ़ावा देने के लिए

सुधारों का प्रस्ताव रखा,

रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

बिज़नेस रेमेडीज/ मुंबई/

आईएएनएस। नीति आयोग ने

भारत के होमस्टे क्षेत्र को मजबूत

करने के लिए कई सुधारों का

प्रस्ताव रखा और कहा कि यह

रोजगार और क्षेत्रीय विकास का

एक प्रमुख वाहक बन सकता है

क्योंकि देश आर्थिक विस्तार के

लिए पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर

रहा है। पॉलिसी थिंक टैंक ने

एंड

एसोसिएशन ऑफ इंडिया के

साथ मिलकर तैयार की एक नई

नेवीगेटिंग पॉलिसी पाथवेज में

राज्यों को होमस्टे के लिए एक

इकोसिस्टम बनाने में मदद करने

के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, सरल

पंजीकरण और नवीनीकरण

प्रक्रिया और संचालन के

डिजिटलीकरण का सुझाव दिया

है। रिपोर्ट में कहा गया है कि

महामारी के बाद घरेलू पर्यटन में

तेजी आई है, और ज्यादा यात्री

इमर्सिव और समुदाय-आधारित

अनुभवों की तलाश कर रहे हैं।

और समावेशी

रिपोर्ट रीथिंकिंग होमस्टे

मोबाइल

इंटरनेट

मजबूत

साकार होगा।

बिजली कनेक्शन देगी अदाणी इलेक्ट्रिसटी बिजनेस रेमेडीज/

गणेश पंडालों को आवासीय दरों पर अस्थायी

मुंबई/आईएएनएस

अदाणी इलेक्ट्रिसटी ने शनिवार को कहा कि कंपनी शहर में आगामी गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडालों को आवासीय दरों पर अस्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवा कर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल का उद्देश्य शहर भर के पंडालों को उत्सव के दौरान अबाधित बिजली उपलब्ध करवाना है।

कंपनी के अनुसार, आवेदन जमा करने के 48 घंटों के भीतर गणेश पंडाल अपना अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। पंडाल, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी की वेबसाइट पर जाकर अस्थायी कनेक्शन सप्लाई पाने के लिए 'नया कनेक्शन' सेक्शन पर जा सकते हैं। अदाणी इलेक्ट्रिसटी के एक प्रवक्ता ने कहा कि गणेश पंडालों के लिए विश्वसनीय अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान कर

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहार की भावना निर्बाध बिजली आपूर्ति के साथ मनाई पंडालों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अदाणी इलेक्ट्रिसटी सभी आयोजकों से आग्रह करती है कि वे बिजली के तारों के लिए केवल अधिकृत लाइसेंस प्राप्त इलेक्टिकल कॉन्टैक्टर्स का ही इस्तेमाल करें

जाए। यह पहल ग्राहकों के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा, कि पिछले वर्ष, हमने शहर भर के 986 से अधिक गणेश पंडालों को सफलतापुर्वक निर्बाध बिजली प्रदान की थी। हमने कनेक्शन की मंजुरी में तेजी लाने और पुरे उत्सव के दौरान विश्वसनीय बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी की है। प्रवक्ता ने आगे कहा, कि हमारी डेडिकेटेड क्रिक रिस्पॉन्स टीम किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात है। प्रवक्ता के अनुसार, 'गणेश

पीएम मोदी 1122 करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण करेगे : पीएम मोदी

25-26 अगस्त को उत्तर गुजरात में करोड़ों की परियो-जनाओं का लोकार्पण करेंगे।

**DIO**diesel

राजपूताना बायोडीजल लिमिटेड (पूर्व नम 'राजपूत्रान बयोडीजल प्राइवेट लिमिटेड')

पजीकृत कार्यालयः जयपुरिया मेशन, पींच बती, एम.आई. रोड, जयपुर - 302001, राजस्थान CIN: U74999RJ2016PLC056359, फोन नक्ट. +91-9509222333

इंगेल: info@rajputanabiodiesel.com, वेबताइट: www.rajputanabiodiesel.com वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से आयोजित की

जाने वाली 9वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विभिन्नय बोर्ड (तुपीबद्धता वाधित्व और प्रकटीकरण अवश्यकताएँ) विभिन्नम, २०१५ के लागू प्रावदानों जिते सामन्य परिपत्र संख्या १४/२०२० दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 02/2021 दिनांक जनवरी के तपिरत 13, 2021, 19/2021 दिनाक 8 दिताबर, 2021, 02/2022 दिनाक 5 गई, 2022, 10/2022 दिनाक 28 दिताबर, 2022, 09/2023 दिनाक 25 वितंबर, 2023, 09/2024 दिनाक 19 वितंबर, 2024 को कॉपॉरेट मामलो के मात्रलय द्वारा जारी ('एमटीए परिपत्र') और भारतीय प्रतिभूति और विकास बोर्ड (तेबी) द्वारा जारी परिपन्न तस्था SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिजाक 12 मई 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 降荷布 15 赤河花, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 降荷布 13 研机 2022, SEB1/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 管动5 5 动和机, 2023, SEB1/HO/CFD/CFD/PoD2/P/CIR/2023/167 विजयक 07 अवस्थार 2023 और SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 विजयक 3 अवस्थार, 2024 परिपन्ने के अनुपालन में राजधूतान बायोडीजल लिमिटेड (पूर्व नाम 'राजधूताना बायोडीजल प्राइवेट लिमिटेड') ('कंपनी') के सदस्यों की 9वीं (नीवी) वर्षिक आम बैठक ('9वी एजीएम') शनिवार, 20 दितबर, 2025 को दोपहर 02.00 बजे भारतीय मानक रामय ('आईएसटी') वीडियो कॉन्फेरिन ('वीती')/ अन्य ऑडियो-विद्धासल मध्यमी ('ओएवीएम') के मध्यम से सदस्यों को एक ही स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थित के बिना, एजीएम बुलाने के

नेटित में निर्वारित व्यवताय को पूठ करने के लिए आयोजित की जाएगी। एमसीए और तेबी परिपत्रों के अनुपालन में, 9वीं एजीएम की तूचन और कंपनी की वर्षिक रिपोर्ट, जितमें अन्य बातों के ताथ-ताथ विशीय वर्ष 2024-25 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के ताथ एकल और तमेकित वित्तीय विवरण शामिल हैं, नियत तमय में केवल इलेक्ट्रोनिक मोड (कर्नी, ई-मेल के मध्यम से) के मध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते कपनी या उनके रुबदित डिपॅक्टिटरी प्रतिभगियों के साथ प्रजीकृत हैं।

ठदस्य केवल वीती/ओएवीएम तुविधा के मध्यम ने ही 9वीं वार्षिक आम बैठक में श्रामिल हो तकते हैं और भाग ले तकते हैं। वीती/ओरवीएम तुविदा के माध्यम ते भाग लेने वाले ठवरचों की गणना अधिनियम की धारा 103 के ताहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी। 9वीं वर्षिक आम बैठक की तूचना और वर्षिक रिपोर्ट भी कपनी की वेबताइट <u>www.rajputanabiodiesel.com</u> पर उपलब्ध कराई जएमी, जिले उन स्टॉक एक्सचेजों की वेबसाइट <u>www.rajputanabiodiesel.com</u>, जिन पर कंपनी के शेवर सूचीबद्ध हैं, जैसे कि नेष्ठनल स्टॉक एक्लचेज ऑफ इंडिया की वेबलाइट <u>www.nseindia.com</u> और नेष्ठनल ठिक्थोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसङ्ग www.evoting.nsdl.com पर वेखा जा सकता है।

सदस्यों को एनएसडीएल ई-वॉटिन प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएबीएम के जरिए 9वीं एजीएम में श्रमिल होने की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठदस्य ई-वोटिम क्रेडेशियस्त का उपयोग करके सदस्य लॉमिन के तहत <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर इतका उपयोग कर ठकते हैं। रुफल लॅमिन के बाद, रुदस्य 'जवाइन मीटिन' के अंतर्गत 'वीती/ओएबीएम लिक' का लिक देख रुकते हैं। वीती/ओएबीएम का लिक ष्टेयत्थातक/सदस्य लेमिन के तहत दिखाई देमा जहा कंपनी का ईवन प्रदर्शित होमा। कंपनी एजीएम के दौरान सदस्यों को रिमोट ई-वॉटिन या ई-बोटिन किस्टम के जिरए वोट बेने की सुविधा प्रदान कर रही है। वीती/ओएबीएम के मध्यम ते 9वी एजीएम में छमिल होने और एजीएम में रिमोट ई-वॉटिंग या ई-वॉटिंग के जरिए वॉट डालने के विस्तृत निर्देश कंपनी की 9वीं एजीएम की सूचन में दिए गए हैं।

रुदस्यों ने अनुरोध है कि वे अपने डीमेंट होल्डिंग्त के संबंध में अपने ई-मेल पते को डिपॉजिस्टी प्रतिभाभियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके उपने तबिवत डिपेजिटरी प्रतिभगियों के पन पंजीकत कराएँ।

जिल तदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उन्हें एक पत्र भेजा जाएग जिसमें वेब-लिक, तटीक पक्ष रहित, जहीं वर्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्द होगा, भेजा जाएगा। जिल तदस्वों ने अपने ई-मेल पते पत्नीकृत नहीं कराए हैं, वे बैठक के दौरान रिमोट ई-बेटिन या ई-बेटिन प्रणाली के मध्यम से अपन बोट दे सकते हैं और कपने की 9वीं वर्षिक आम बैठक की सुधन में निर्वरित प्रक्रिया का

सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी की 9वीं वर्षिक जान बैठक (एजीएन) की सूचन को ध्यानपूर्वक पहें, विशेष रूप से वर्षिक जान बैठक (एजीएम) में शमिल होने के निर्देश और रिमोट ई-वॉटिंग या वर्षिक अम बैठक (एजीएम) में ई-वॉटिंग प्रणाली के मध्यम ते मतदान करने के तरीके को ध्यानपूर्वक पहें। जिन सदस्यों को वर्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले या उसके दौरान तकनीक के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो, वे <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर अनुरोध मेज तकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं। वर्षिक जाग बैठक (एजीएम) से संबंधित किसी भी जन्य ष्टिकायत/प्रष्टन के लिए, सदस्य नीचे दिए मए हस्ताश्रतकर्ता से ईमेल आईडी.

cs@rajputanabiodiesel.com पर रापर्क कर राकते हैं या कपनी के प्रजीकृत कार्यालय में उन्हें लिख राकते हैं। राजपुतान बायोडीजल लिमिटेड के लिए

दिनाक: 23 अगस्त, 2025

रेटित कुमार गौतम कंपनी राधिव एवं अनुपत्तन अधिकारी,



आध्यात्मिक विरासत का जश्नः LNJ Bhilwara

Group ने नाटक 'युगपुरुष' शानदार प्रस्तुत किया

LNJ Bhilwara Group ㅋ दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में एक नाटक-युगपुरुष का आयोजन किया। गुरू-शिष्य के दिव्य संबंध से प्रेरित इस नाटक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 600 सीटों वाला ऑडिटोरियम हाउसपुल रहा, दर्शकों में नाटक को लेकर उत्साह साफझलक रहा था।

समर्पण को दर्शाती है। थिएटर और इस तरह के प्रोग्रामों के जुरिए ग्रुप लोगों को आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जोड़ने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इस नाटक के ज़रिए यह दिखाय गया कि कैसे श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेनद्रनाथ को स्वामी बनने आध्यात्मिक यात्रा में सहयोग किया। अपने गुरू के मार्गदर्शन में विवेकानंद ने संदेश दिय 'उठो, जागो और तब तक मत

विवेकानंद रूको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।' जागृति और दृढ़त का यह संदेश कई पीढियों के प्रेरित करता रहा है। भारत मे गुरू-शिष्य की पावन परम्परा के उजागर करने वाली नाटक की कहानी दर्शकों के दिल को ह गई। जहां गुरू का सम्मान न सिर्प एक शिक्षक के रूप में बल्कि ऐसी दिव्य शक्ति के रूप में किय जाता है, जो शिष्य को अज्ञानत से आत्म-साक्षात्कार की ओर ले जाती है। इस अवसर प एल.एन. झुनझुनवाला ने कि यह देखकर अच्छा लगता कि इतनी बडी संख्या में श्रद्धाल और थिएटर प्रशंसक एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए हैं। रंगभूमि ने इससे पहले भी श्री अरबिंदे के जीवन को खूबसूरती से चित्रित किया है और युगपुरुष के साथ उन्होंने एक बार फिर से इतिहास एवं आध्यात्म को मंच

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली

ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन से प्रेरित, एल.एन झुनझुनवाला, 65 वर्षों से रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। वे दर्शकों के लिए ऐसा नाटक लाना चाहते थे जो गुरू एवं शिष्य के बीच के पवित्र बंधन पर रोशनी डाले। इसी विचार के साथ उन्होंने लेखक एवं निर्देशक जे.पी. सिंह को नाटक की कहानी लिखने के लिए मार्गदर्शन दिया। दिल्ली के जाने-माने थिएटर ग्रुप रंगभूमि ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ मंच पर नाटक का प्रदर्शन किया। गौरतलब है रंगभूमि 1992 से थिएटर में सक्रिय है और पिछले सालों के दौरान कई बेहतरीन नाटक पेश कर चुका है। यह सांस्कृतिक पहल गुरू-शिष्य की प्रथा को बढ़ाने, देश की आध्यात्मिक विरासत को सुरक्षित रखने और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को अपनाने के लिए ग्रुप के

तह.- सांगानेर, जयपुर राजस्थान - 302037 आईएन, दूरभाष: 0141-7191000 वेबसाइट:- www.globalsurfaces.in; ईमेल:- cs@globalsurfaces.in 34वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्क्रेंस और ऑडियो विजुअल साधन पर आयोजित की जाएगी इसके माध्यम से सूचित किया जाता है कि ग्लोबल सरफेसेज़ लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक ('AGM'), गुरुवार, 18 सितम्बर, 2025 को अपराह 02:00 बजे (भारतीय

ग्लोबल सर्फेसेस लिमिटेड

CIN: L14100RJ1991PLC073860

पंजीकृत कार्यालय: पीए–10–006 इंजीनियरिंग और रिलेटेड इंडस सेज , महिंद्रा वर्ल्ड सिटी

मानक समयानुसार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("VC") / अन्य ऑडियो विज्ञुअल माध्यम ("OAVM") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो कि कंपनियों अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में होगी, जिसे निम्नलिखित कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्रों के संदर्भ में पढ़ा जाए: सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक ५ मई, २०२०, ०२/२०२१ दिनांक १३ जनवरी, २०२१, १९/२०२१ दिनांक ८ दिसम्बर, २०२१, 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022, 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023, 09/2024 दिनांक 19 सितम्बर, 2024 ("MCA सर्कुलर") एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("S E 8 I " ) द्वारा जारी परिपत्रों के संदर्भ में; परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 中美, 2020, SEBI/HO/CFD/ CMD2/ CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023, SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023, SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 ("SEBI सर्कुलर") जिसके अंतर्गत AGM के नोटिस में निर्धारित व्यापारों का निपटान सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना किसी साझा स्थल पर किए सदस्यों को 34वीं AGM में VC/OAVM के माध्यम से भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी, जो कि

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('NSDL') के ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध होगी। सदस्य www.evoting.nsdl.com पर सदस्य लॉगिन के अंतर्गत ई-बोर्टिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करते हुए उक्त सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

कंपनी की 34वीं AGM का नोटिस और वितीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों दिनांक 23 अगस्त, 2025 को उन सभी सदस्यों को प्रेषित कर दी गई हैं, जिनके ईमेल आईडी कंपनी / रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (RTA) / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के पास शुक्रवार, 15 अगस्त, 2025 तक पंजीकृत थीं। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(b) के अनुसार, एक पत्र जिसमें 34वीं AGM का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को एक्सेस करने हेतु वेब-लिंक (सटीक पथ सहित) सम्मिलित हैं, उन सभी सदस्यों को भेजा गया है, जिन्होंने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराया है। 34वीं AGM का नोटिस एवं वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसे निम्नलिखित वेबसाइट्स पर एक्सेस किया जा सकता है: कंपनी की वेबसाइट: www.globalsurfaces.in; स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट्स: BSE लिमिटेड www.bseindia.com; नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया – www.nseindia.com; नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट – www.evoting.nsdl.com.

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए कंपनियों (प्रबंधन और

प्रशासन) नियम, २०१४ के नियम २०, यथासंशोधित, तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिष्ठय बोर्ड (सुवीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44, एवं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक - SS-2 (सामान्य बैठकों पर) के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को NSDL के माध्यम से डलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तावित प्रस्तावों पर मतदान करने हेतू ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है, जो कि कंपनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में विचारार्थ रखे गए हैं। इस संबंध में सदस्यों को आगे सुचित किया जाता है कि:

(a) ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि अर्थात् गुरुवार, ११ सितम्बर, २०२५ को दर्ज है, केवल वहीं रिमोट ई-वोटिंग अथवा AGM

में ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का पात्र होगा। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का शेयरधारक बनने के पश्चात, 34वीं AGM का नोटिस प्राप्त होने के बाद, और 11 सितम्बर, 2025 तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हुआ है, वह evoting@nsdi.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि वह व्यक्ति पहले से ही NSDL पर रिमोट ई-वोटिंग हेतू पंजीकृत है, तो वह मौजूदा

यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके मतदान कर सकता है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 15 सितम्बर, 2025 को प्रातः 09:00 बजे (IST) से प्रारंभ होकर बुधवार, 17 सिताबर, 2025 को सार्य 05:00 बजे (IST) तक रहेगी। इसके पश्चात रिमोट

ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और NSDL द्वारा उसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा। (d) वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया है और AGM में VC/OAVM के माध्यम से उपस्थित हैं, वे AGM के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

वे सदस्य जिन्होंने AGM से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर दिया है, वे AGM में VC/OAVM के माध्यम से भाग तो ले सकते हैं, परंतु वे पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे। AGM में VC/OAVM के माध्यम से शामिल होने तथा रिमोट ई-वोटिंग और AGM के दौरान ई-

वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश AGM के नोटिस में प्रदान किए

(g) कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री अक्षित कुमार जांगिड (सदस्य संख्या: FCS 11285, सी.पी. नंबर: 16300), जो कि पिंचा एंड कंपनी, कंपनी सचिव फर्म के भागीदार हैं, को ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हेतु स्कूटनाइज़र नियुक्त किया है।

यदि ई-वोटिंग अथवा AGM में VC/OAVM के माध्यम से शामिल होने से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के लिए सहायता चाहिए, तो सदस्य www.evoting.nsdl.com की हेल्प सेक्शन में दिए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAOs) और रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या नीचे दिए गए माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं: फोन: 022 - 4886 7000 ईमेल: सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक (NSDL) को pallavid@nsdl.com पर डाक द्वारा: 3rd फ्लोर, नमन चैंबर, G ब्लॉक, प्लॉट नंबर C-32, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400051.

> वास्ते ग्लोबल सफेंसेज लिमिटेड घरमसिंह राठौड कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी एम. नं. A57411

> > **•** • • •

एमबीए और एमसीए के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए एक सप्ताह का छात्र प्रेरण कार्यक्रम आयोजित

बिज़नेस रेमेडीज/जयपुर

सेंट जेवियर्स कॉलेज, जयपुर के संस्थान की नवाचार परिषद और संस्थान-उद्योग प्रकोष्ठ जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेटिक्स ने एमबीए और एमसीए सत्र 2025-26 के सभी प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए एक सप्ताह का छात्र प्रेरण कार्यक्रम -'इग्नाइट 2025 विकास, नेटवर्किंग, नवाचार, प्रौद्योगिकी और उत्कृष्टता के लिए प्रेरण' आयोजित किया।

यह कार्यक्रम XIMI- सिटी कार्यालय में 18 अगस्त 2025 से 23 अगस्त 2025 तक आयोजित किया गया। इस प्रेरण



कार्यक्रम का उद्देश्य नए छात्रों को संस्थान की संस्कृति से परिचित कराते हुए नए शैक्षणिक वातावरण में सहज एकीकरण की सविधा प्रदान करना था। इस प्रेरण कार्यक्रम में छात्रों के साथ बातचीत के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित हस्तियों को आमंत्रित किया गया था।

भामाशाह टेक्नो हब का शैक्षिक भ्रमण भी परिचित हुए।

टॉक-शो, कार्यशालाएँ, विचार-मंथन और

समसामयिक विषयों पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। अक्षय पात्र फाउंडेशन के मिड-डे मील किचन मैनेजमेंट और आयोजित किया गया। निदेशक, डॉ. मधु शर्मा ने नए प्रवेशार्थियों का स्वागत किया और कॉलेज प्रशासन एवं विभाग के सामान्य नियमों व विनियमों पर एक सत्र में भाग लिया। एसोसिएट डायरेक्टर, फादर अब्राहम अमल राज एस.जे. ने एक अत्यंत रोचक विचार-मंथन सत्र का संचालन किया। छात्रों ने सिक्रय रूप से भाग लिया, XIMI के वातावरण से परिचित हुए और उससे

## कोच्चि में 600 करोड़ रूपए की लागत से अदाणी लॉजिस्टिक्स पार्क का शिलान्यास

हमारी

स्थानीय

बिजनेस रेमेडीज/ कोच्चि/आईएएनएस

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने शनिवार को कलामासेरी औद्योगिक क्षेत्र में अदाणी लॉजिस्टिक्स पार्क के शिलान्यास की घोषणा की. जिसका उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया। 70 एकड़ में फैली यह परियोजना 600 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाले 'केरल में निवेश' कार्यक्रम का हिस्सा है। अदाणी लॉजिस्टिक्स पार्क में सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के मध्यनजर इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशन, चार्जिंग स्मार लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन और इंटीग्रेशन जैसी डिजिटल स्विधाएं शामिल होंगी।

कंपनी के अनुसार, इस पार्क से 1,500 से अधिक



परिवर्तन की दिशा में एक नौकरियों के सुजन की उम्मीद जिससे स्थानीय रोजगार महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस कौशल और आर्थिक विकास दिशा में हमारे सबसे बडे प्रयासों को बढावा मिलेगा। साथ ही में से एक के रूप में, यह पार्क सप्लाई चेन इकोसिस्टम में लघ् दक्षिण भारत में और मध्यम उद्यमों (एसएमई) लॉजिस्टिक्स उपस्थिति को करने. के लिए विकास के अवसर पैदा मजबूत विनिर्माण और क्षेत्रीय विकास होंगे। एपीएसईजेड को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ अश्विनी गुप्ता ने कहा, कि भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा, कि हम वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रकर कलामासेरी लॉजिस्टिक्स पार्क, एपीएसईजेड के बंदरगाह-केंद्रित के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, उद्यम से फुली इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट जो सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स बिजनेस में और राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा

दे।' यह ऐतिहासिक परियोजना केरल को एक लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक महाशक्ति में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पार्क कोच्ची में स्थित है, जो कि औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स विकास के केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा शहर है। पार्क 70 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है और इसे परिवहन लागत को कम करने, समय पर संचालन को सक्षम बनाने और ई-कॉमर्स, एफएमसीजी/एफएमसीडी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव और खुदरा सहित प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। केरल के उद्योग मंत्री पी. राजीव ने कहा कि कलामासेरी लॉजिस्टिक्स पार्क, एपीएसईजेड के स्मार्ट, सस्टेनेबल इंफास्ट्रक्कर के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो व्यापार को बढ़ावा देता

समुदायों को सशक्त बनाता है और बाजारों को जोड़ता है। एक लॉजिस्टिक्स हब से कहीं बढ़कर, यह समावेशी विकास और क्षेत्रीय परिवर्तन का कैटलिस्ट है। उन्होंने आगे कहा कि कोच्चि में एपीएसईजेड के पहले लॉजिस्टिक्स पार्क के रूप में. यह पार्क सप्लाई चेन में ग्राहकों की बेहतर सुविधा, परिचालन पारदर्शिता और रियल टाइम विजिबिलिटी के लिए गेट एंट्री से लेकर इनवॉइसिंग तक जीरो-टच ऑपरेशन सुनिश्चित करते हुए एक सहज, एंड-टू-एंड डिजिटल एक्सपीरियंस प्रदान करेगा। वैश्विक रूप विविधीकृत अदाणी समूह का हिस्सा, अदाणी पोर्ट्स भारत में सबसे बंदरगाह विकासकर्ता और संचालक है, जो कि देश के कुल बंदरगाह कारोबार का 28 प्रतिशत

प्रतिनिधित्व करता है।

## शास्त्रीय गायिका कौशिर्क चक्रवर्ती को टाइम्स स्क्वायर पर सम्मानित बिजनेस रेमेडीज/ मुंबई

पर जीवंत कर दिया है।

आईएएनएस। मिर्जिया औ शिकारा जैसी फिल्मों में अपनी आवाज देने वाली पटियाला घराने से ताल्लक रखने वाली प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिक कौशिकी चक्रवर्ती को न्यूयॉक के मशहर टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर फीचर किया गय है। कौशिकी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की खयाल गायिकी के लिए जानी जाती हैं। साथ ही वह पटियाला घराने से ताल्लुक रखती हैं।

जानकारी के अनुसार पहली भारतीय शास्त्रीय गायिक हैं, जिन्हें टाइम्स स्क्वायर के इस प्रसिद्ध बिलबोर्ड पर जगह मिली है। कौशिकी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि जब उन्हें पहली बार इसके बारे में पत चला, तो उन्होंने किसी को नहीं बताया था।

स्थान: जयपुर

दिनांक: 23 अगस्त, 2025